

Northern Coalfields Limited

(Govt. of India Mini Ratna Company)

Post- Singrauli Colliery

Distt- Singrauli MP PIN-486889



नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक मिनि रत्न प्रतिष्ठान)

पोस्ट सिंगरौली कोलियरी,

जिला- सिंगरौलीम. प्र., पिन 486889

CIN- U10102MP1985GOI003160

Phone: 07805- 266808 (Off) , 266640 (Fax)email: [pro.ncl@coalindia.in](mailto:pro.ncl@coalindia.in)website : [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

क्रमांक :- एनसीएल/सिंग/प्रे.वि./2016-17/343

दिनांक - 25.10.2016

## प्रेस विज्ञापित

### जिला स्तरीय कराते प्रतियोगिता में बैटन अक्वल, नंदगांव उप विजेता

#### अमलोरी परियोजना के सौजन्य से हुआ आयोजन

सिंगरौली -एस पी वर्मा (पी टी आइ) नंदगांव स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में सिंगरौली जिला कराते संघ के तत्वाधान व अमलोरी कोयला परियोजना के सी एस आर विभाग के सौजन्य तथा कराते - डो- एकाडमी आफ इण्डिया शाखा नंदगांव द्वारा आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय कराते प्रतियोगिता में 28 स्वर्ण, 25 रजत एवं 9 कांस्य सहित 62 पदक हासिल कर बैटन टीम ने एक बार फिर से आल ओव्हर चैम्पियन का खिताब अपने नाम किया। 19 स्वर्ण, 19 रजत, 11 कांस्य को मिलाकर 49 पदकों के साथ मेजवान नंदगांव जहां उप विजेता रहा वहीं 5 स्वर्ण, 2 रजत, एक कांस्य सहित कुल 8 पदक हासिल करने वाली अमलोरी टीम तीसरे स्थान पर रही।

प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण का पुरस्कार वितरण समारोह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व जिला खेल अधिकारी सिंगरौली- सूर्यकांत शर्मा के मुख्य आतिथ्य, अमलोरी परियोजना के महाप्रबंधक -एस के झा, ककरी परियोजना के महाप्रबंधक - एल पी गोडसे, डिप्टी डायरेक्टर विटनरी-एस एम पी शर्मा, महिला थाना प्रभारी बैटन- श्रीमती अर्चना द्विवेदी के विशिष्ट आतिथ्य, सिंगरौली जिला कराते संघ के प्रशासनिक अधिकारी- विनोद द्विवेदी की अध्यक्षता एवं एस ओ पी दुधीचुआ परियोजना- सफदर खान, एस ओ पी अमलोरी परियोजना पी के दुबे, समाजसेवी एस डी सिंह, डा. डी के मिश्रा, प्रभांस चौधरी, अमलोरी परियोजना के सामुदायिक विकास सह राजस्व अधिकारी- अमरेन्द्र कुमार की विशेष उपस्थिति में सम्पन्न किया गया।

इस आशय की जानकारी के साथ जिला कराते संघ के संयुक्त सचिव सुग्रीव वर्मा ने बताया है कि विश्व कराते महासंघ के नियमों व जिला कराते संघ के तकनीकी निदेशक एवं सचिव संसाई अरविंद मिश्रा के मार्ग दर्शन में संपन्न हुई इस प्रतियोगिता में बालक- बालिकाओं के विभिन्न उम्र वर्ग तथा पुरुष- महिलाओं की भिन्न- भिन्न वजन वर्ग में कता, कुमिते की कई स्पर्धाएं संपन्न करायी गयी। जिसमें 28 स्वर्ण, 25 रजत, 9 कांस्य सहित 62 पदक हासिल कर बैटन के खिलाड़ियों ने आल ओवर चैम्पियन का खिताब हासिल किया। जबकि 19 स्वर्ण, 19 रजत, 11 कांस्य को मिलाकर 49 पदकों के साथ मेजवान नंदगांव उप विजेता रहा। 5 स्वर्ण, 2 रजत व 1 कांस्य सहित 8 पदकों के साथ अमलोरी तीसरे, 3 स्वर्ण, 7 रजत, 3 कांस्य कुल 13 पदक प्राप्त कर जयंत चौधे, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 एक कांस्य सहित 6 पदकों के साथ डी पी एस निगाही पांचवे तथा 2 कांस्य के साथ विन्ध्यनगर छठवें स्थान पर रहा।

प्रतियोगिता को संपन्न कराने में जिला कराते संघ के निर्णायको में से परमानंद चैरसिया, मुनौवर अली, मोहन सिंह, कमलेश गुप्ता, अजय बसोर, रियाज खान, राजकुमार बसोर, आकेश वर्मा, संजय साह, रवि चैरसिया, मो.शवाले राजकुमार शर्मा, पंकज सिंह, ज्योति चैरसिया, सिद्धार्थ तिवारी ने अपनी तकनीकी सेवाएं प्रदान किया। बताया गया है कि इसी प्रतियोगिता के आधार पर मध्य प्रदेश कराते संघ द्वारा आयोजित राज्य व अखिल भारतीय कराते महासंघ द्वारा आयोजित नेशनल स्तर की प्रतियोगिता हेतु जिले के खिलाड़ियों का चयन कि किया जायेगा।

